



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 478] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 19, 1982/आश्विन 27, 1904
No. 478] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 19, 1982/ASVINA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1982

क्र० जा० 751(अ) .-केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और नियंत्रण) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० जा० घा० 98(घ)/उ० विविध०/29ख/73/1/तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना की अनुसूची I में--लघु क्षेत्र के लिए प्रारक्षित वस्तुओं की सूची--

(i) क्रम सं० 130 के सामने, तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"समाकलित बैंकिंग के लिए पालिथीलीन स्तरीय कागज को छोड़कर बहुवर्धन परत प्रक्रिया द्वारा सीधा या दबे हुए पालिथीलीन स्तरीयित हेसियन, कागज और कपड़ा";

(ii) क्रम संख्यांक 240 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् और 240(क) से पूर्व, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अस्त.स्थापित की जाएँगी, अर्थात्--

"240 (ग) 3106558 नीमासनामाह";

(iii) क्रम संख्यांक 249 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अस्त.स्थापित की जाएँगी अर्थात् :-

"240क	31315801	पेरा हाइड्रोक्सी बेनजोइक अम्ल से लेकर मेथिल पेटाबेस
249ख	31315901	पेरा हाइड्रोक्सी बेनजोइक अम्ल से लेकर एथिल पेटाबेस
249ग	31319501	पेरा हाइड्रोक्सी बेनजोइक अम्ल से लेकर प्रोथिल पेटाबेस
249घ	31319600	कैल्सियम ग्लूकोसेट
249ङ	316101	टर्पेन्टाइन
249च	316103	रोजिन"

(iv) क्रम संख्यांक 252 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“252क 31942960 निकोटिनिक अम्ल” ;

(v) क्रम संख्यांक 318 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“318क 319602 सैकरीन” ;

(vi) क्रम संख्यांक 340 के सामने तीसरे स्तंभ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“प्लास्टर ग्राफ वेरिड (सिवाए उसके जहाँ उसका उपयोग सस्तिमणि सामग्री के रूप में किया जाना है)” ;

(vii) क्रम संख्यांक 342 के सामने दूसरे और तीसरे स्तंभों के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“32490501 प्लास्टर के बोर्ड (स्वसंसाधन उपयोग करने के सिवाए)”

(viii) क्रम संख्यांक 633 के सामने, दूसरे और तीसरे स्तंभों के अंकों और प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित अंक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“37472802 टेपरित रोक स्ट्रिंग को ओझकर आटो लोक स्ट्रिंग” ।

2. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10-11, 11क और 13 के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई हो और इस अधिसूचना के आधारे पर छूट-प्राप्त नहीं है, कोई स्वामी, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही, और राज्य सरकारों की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार ही ऐसे उपक्रमों का कारखाना चलाएगा अथवा नहीं।

टिप्पण

अधिसूचना सं० का० भा० 98 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/73/1 तारीख 16-2-73 का निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया है :—

- (1) अधिसूचना सं० का० भा० 1817 तारीख 18-6-73
- (2) अधिसूचना सं० का० भा० 671 (अ)/उ० वि०वि०अ०/73/3 तारीख 31-10-73
- (3) अधिसूचना सं० का० भा० 122 (अ)/उ०वि०वि०अ०/74/3 तारीख 26-2-74
- (4) अधिसूचना सं० का० भा० 123 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/74/2 ता० 26-8-74
- (5) अधिसूचना सं० का० भा० 152 (अ)/उ०वि० वि०अ०/74/13/ ता० 29-2-74
- (6) अधिसूचना सं० का० भा० 220 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/75 ता० 19-5-75

- (7) अधिसूचना सं० का० भा० 368 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/75/ 4 ता० 21-7-75
- (8) अधिसूचना सं० का० भा० 652 (अ)/उ०वि०वि०अ०/75/9 ता० 13-11-75
- (9) अधिसूचना सं० का० भा० 406 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/76/2 ता० 5-6-76
- (10) अधिसूचना सं० का० भा० 736 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/ 75 ता० 16-12-76
- (11) अधिसूचना सं० का० भा० 801 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/76 ता० 17-12-76
- (12) अधिसूचना सं० का० भा० 249 (अ)/उ०वि०वि०अ०/29बी/7 ता० 4-4-78
- (13) अधिसूचना सं० का० भा० 281 (अ) ता० 26-4-78
- (14) अधिसूचना सं० का० भा० 750 (अ) ता० 30-12-78
- (15) अधिसूचना सं० का० भा० 479 (अ) ता० 22-8-79
- (16) अधिसूचना सं० का० भा० 563 (अ) ता० 3-10-79
- (17) अधिसूचना सं० का० भा० 564 (अ) तारीख 4-10-79
- (18) अधिसूचना सं० का० भा० 758 (अ) ता० 24-11-79
- (19) अधिसूचना सं० का० भा० 761 (अ) तारीख 27-11-79
- (20) अधिसूचना सं० का० भा० 48 (अ) ता० 19-1-80
- (21) अधिसूचना सं० का० भा० 100 (अ) ता० 18-2-80
- (22) अधिसूचना सं० का० भा० 193 (अ) ता० 14-3-80
- (23) अधिसूचना सं० का० भा० 312 (अ) ता० 12-5-80
- (24) अधिसूचना सं० का० भा० 344 (अ) ता० 23-5-80
- (25) अधिसूचना सं० का० भा० 594 (अ) तारीख 31-7-80
- (26) अधिसूचना सं० का० भा० 610 (अ) तारीख 2-8-80
- (27) अधिसूचना सं० का० भा० 861 (अ) तारीख 24-10-80
- (28) अधिसूचना सं० का० भा० 868 (अ) तारीख 25-10-80
- (29) अधिसूचना सं० का० भा० 879 (अ) तारीख 5-11-80
- (30) अधिसूचना सं० का० भा० 880 (अ) तारीख 5-11-80
- (31) अधिसूचना सं० का० भा० 115 (अ) तारीख 19-2-81
- (32) अधिसूचना सं० का० भा० 293 (अ) तारीख 7-4-81
- (33) अधिसूचना सं० का० भा० 320 (अ) तारीख 25-4-81
- (34) अधिसूचना सं० का० भा० 407 (अ) तारीख 2-6-81
- (35) अधिसूचना सं० का० भा० 516 (अ) तारीख 27-6-81
- (36) अधिसूचना सं० का० भा० 621 (अ) तारीख 3-8-81
- (37) अधिसूचना सं० का० भा० 655 (अ) तारीख 18-8-81
- (38) अधिसूचना सं० का० भा० 909 (अ) तारीख 23-12-81
- (39) अधिसूचना सं० का० भा० 49 (अ) तारीख 25-1-82
- (40) अधिसूचना सं० का० भा० 556 (अ) तारीख 6-8-82
- (41) अधिसूचना सं० का० भा० 603 (अ) तारीख 17-8-82
- (42) अधिसूचना सं० का० भा० 623 (अ) तारीख 31-8-82
- (43) अधिसूचना सं० का० भा० 744 (अ) तारीख 14-10-82

[का० सं० 12/211/79-एल० पी०]

सी० के० मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19 October, 1982

S.O. 751(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S O 98(E)/IDRA/29 B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely:—

1. In the said notification, in Schedule I—List of Reserved items for Small Scale Sector, —

(i) against Sl No 130, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely:—

Hessian, Paper and cloth to Polyethylene laminations straight and sandwiched by extrusion coating process except paper to polythene laminations for integrated packing”,

(ii) after S No 240 and the entries relating thereto and before 240(A), the following Serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“240(i) 310658 Niacinamide”

(iii) after Sl No 249 and the entries relating thereto the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“249A	31315801	Methyl Parabens starting from Para Hydroxy Benzoic Acid.
249B	31315901	Ethyl Parabens starting from Para Hydroxy Benzoic Acid
249C	31319501	Propyl Parabens starting from Para Hydroxy Benzoic Acid.
249D	31319600	Calcium Gluconate.
249E	316101	Turpentine
249F	316103	Rosin”,

(iv) after Sl No 252 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“252A 31942960 Nicotinic Acid”,

(v) after Sl No 318 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“318A 319602 Saccharine.”,

(vi) against Sl No. 340, for the entry in third column, the following entry shall be substituted, namely:—

Plaster of paris (excepting for use as construction material)”,

(vii) against Sl No. 342, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely:—

“32490501 Plaster Boards (excepting for using automatic process).”;

(viii) against Sl No. 633, for the figures and entry in the second and third columns respectively, the following figures and entry shall respectively be substituted, namely:—

“37472802 Auto Leaf springs excluding tapered leaf springs”.

2 In pursuance of sub-section (2) of section 29-B of the industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking, which was previously exempted from the operation of sections 10, 11, 11A, and 13 of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification, shall carry on the business of such undertakings, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and, in the case of State Governments, except under and in accordance with the previous permission of the Central Government

NOTE

Notification No S.O 98(E) /IDRA/29B/73/1 dated 16-2-73 has been subsequently amended by

- (1) Notification No S O 1817 dated 18-6-73
- (2) Notification No S O 671(E)/IDRA/73/3 dated 31-10-73
- (3) Notification No S O 122(E)/IDRA/74/3d ated 26-2-74
- (4) Notification No. S O 123(E)/IDRA/29B/74/2 dated 26-2-74
- (5) Notification No S.O. 152(E)/IDRA/74/13 dated 29-8-74
- (6) Notification No. S O. 220(E)/IDRA/29B/75 da ed 19-5-75
- (7) Notification No S O. 368(E)/IDRA/29B/75/4 dated 21-7-75
- (8) Notification No S O. 652(E)/IDRA/75/9 dated 13-11-75
- (9) Notification No S O. 406(E)/IDRA/29B/76/2 dated 5-6-76
- (10) Notification No. S O 736(E)/IDRA/29B/75 dated 16 12 76
- (11) Notification No. S O 801(E)/IDRA/29B/76 dated 17 12 76
- (12) Notification No S O 249(E)/IDRA/29B/75 dated 4-4-78
- (13) Notification No. S O 281(E) dated 26-4-78
- (14) Notification No S O 750(E) dated 30-12-78
- (15) Notification NO.S O 479(E) dated 22-8-78
- (16) Notification No. S O. 563(E) dated 3-10-79
- (17) Notification No. S O. 64 E dated 4-10-79
- (18) Notification No. S.O. 758(E) dated 24-11-79
- (19) Notification No. S O 761(E) dated 2 7-11-79
- (20) Notification No. S.O. 48(E) dated 19-1-80
- (21) Notification No. S O. 100(E) dated 18.2.80
- (22) Notification No S O. 193(E) dated 14-3-80
- (23) Notification No S.O 312(E) dated 12-5-80
- (24) Notification No. S.O. 344(E) da(ed 23-5-80
- (25) Notification No S O 594(E) dated 31-7-80
- (26) Notification No S.O 610(E) dated 2-8-80
- (27) Notification No. S.O 861(E) dated 24-10-80
- (28) Notification No S O. 868(E) dated 25-10-80
- (29) Notification No. S O. 879(E) dated 5-11-80

-
- | | |
|---|--|
| (30) Notification No. S.O. 880(E) dated 5- -80 | (38) Notification No. S.O. 909(E) dated 23-12-8 |
| (31) Notification No. S.O. 115(E) dated 19-2-81 | (39) Notification No. S.O. 49(E) dated 25-1-82 |
| (32) Notification No. S.O. 293(E) dated 7-4-81 | (40) Notification No. S.O. 556(E) dated 6-8-82 |
| (33) Notification No. S.O. 320(E) dated 25-4-81 | (41) Notification No. S.O. 603(E) dated 17-8-82 |
| (34) Notification No. S.O. 407(E) dated 2-6-81 | (42) Notification No. S.O. 623(E) dated 31-8-82 |
| (35) Notification No. S.O. 516(E) dated 27-6-81 | (43) Notification No. S.O. 744(E) dated 14-10-82 |
| (36) Notification No. S.O. 621(E) dated 3-8-81 | |
| (37) Notification No. S.O. 655(E) dated 18-8-81 | |

[F.No.12/211/79-LP]

C. K. MODI, Jt. Secy.